

वारिका संघर्ष

दिवाक

उत्थेता

माननीय उच्च न्यायालय की विजिप्स दिनांकित २-७-१९९३
के उन्हार निम्ननिवात नवनियुक्त मुसिक को उनके नाम के साथ अकित
संस्था संघर्ष-५ में अकित अधिकार तक अवहार कार्य प्रतिष्ठान हेतु
निर्दिश बियाजात है :-

1	2	3	4
1-	श्री अदिवासा संघर्षा	१. मुसिक सदार	६-७-९३ से १०-७-९३
		२. चतुर्थ अपर मुसिक	२०-७-९३ से २६-७-९३
		३. अवहार न्यायालयीरा	२७-७-९३ से ३-१०-९३
2-	श्री राम गिलन तिह	१. अवहार न्यायालयीरा	६-७-९३ से १२-७-९३
		२. चतुर्थ अपर मुसिक	१३-७-९३ से १०-७-९३
		३. मुसिक सदार	२०-७-९३ से ३-१०-९३

उपरोक्त अधिकारीगण माननीय उच्च न्यायालय के विजिप्स दिनांक
२-७-१९९३ के उन्हार अपने नाम के सक्रिय अधिकार न्यायालय में होंगे,
कार्यालयी होंगे, साथ्य के निमित्त अपने नोट लेखार करेंगे व तदोपरान्त
अपने नियम लिखिएंगे। इनके इस प्रतिष्ठान कार्य के नियन्त्रण हेतु
श्री कौर श्री मिश, चतुर्थ अपर जिला एवं सभा न्यायालयीरा, उत्तराखण्ड को
नियुक्त बिया जाता है। उपरोक्त प्रतिष्ठानाधीर्ण अधिकारीगण
वाम-वापने प्रतिष्ठान की प्राक्की उनके सक्रिय उस्तुत करेंगे और उनके
नियंत्रान्तार प्रतिष्ठान की अधिकारी भै कार्य करते रहेंगे।

श्री अदिवासा संघर्षा
न्यायालयीरा, उत्तराखण्ड
को सूचना देव न्यायालय
कार्यालयीरा, उत्तराखण्ड
द्वारा प्रेसिडें

एकारी उत्तराखण्ड न्यायालयीरा
प्रतिष्ठान
६-७-१९९३

न्यायालयीरा, उत्तराखण्ड
प्रतिष्ठान
६-७-१९९३